



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2005 (भाद्रपद 12, 1927)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2005 (BHADRA 12, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 13 जुलाई 2005

दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. ए. 32014/1/02-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मई, 2005 के का. ज्ञा. सं. 05/11/2002-सी.एस. II के द्वारा जोनिंग स्कीम के अधीन आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) के स. आ. से. संवर्ग की चयन सूची 2001 में शामिल किए जाने के लिए पदोन्नति होने पर संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के के. स. आ. से. संवर्ग के श्री बेंजामिन किस्कू नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ग" को संघ लोक सेवा आयोग में रु. 65,000-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई 2005 (अप.) से आगामी आदेशों तक निजी सचिव (विलयित ग्रेड "क" एवं "ख" के.स.आ.से.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री बेंजामिन किस्कू की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति दिनांक 01 जुलाई, 2005 (अपराह्न) से दो वर्ष के लिए परख अवधि के आधार पर होगी।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 12011/2/98-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 जून, 2005 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2003-सी. एस. II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, के. स. आ. से. संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों, ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) को दिनांक 01 जुलाई 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक या अधिकारियों की चयन सूची उपलब्ध होने तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के. स. आ. से. के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

1. सुश्री एस. एम. ओबराय
2. श्री एच. सी. सहगल

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा के. स. आ. से. संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

3. यह इस कार्यालय की दिनांक 19 जनवरी, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जारी किया जाता है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. ए. 32013/2/03-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 जून, 2005 के का. ज्ञा. सं. 5/11/2003-ती. एस. II के अनुसरण में, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2003 हेतु श्री प्रेम प्रकाश, के. स. आ. से. को संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में 23 जून, 2005 से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के. स. आ. से. के ग्रेड में श्री प्रेम प्रकाश का वरिष्ठता क्रम ऊपर दर्शाए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. के अधिवर्धन में दी गई क्रम सं. का पालन किया जाएगा।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/110/3/33/2005--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री एस. सी. सत्यवली, अपराध सहायक, के. अ. ब्यूरो को दिनांक 15 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/0111/ए-20023/2/82--श्री राज पाल सिंह ने अधिवर्धिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31 जुलाई, 2005 (अपराह्न) से अपर-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

शचिन बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 2/39/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री विनीत आनन्द को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप में दिनांक 01 अगस्त 2005

(पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की निजी सचिव के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल

उप सचिव

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2005

सं. ओ.दो.-3697/2005-डी.सी. कार्मिक-1--इस महानिदेशालय के आदेश सं.-डी.नौ. 15/2001-सीआरसी, दिनांक 22 जून 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री एस. नेल्सन, उप कमाण्डेन्ट (इरला-3697) ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल पल्लीपुरम का अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु आदेश पारित किया गया। तदनुसार उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 05 जुलाई 2005 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 05 जुलाई 2005 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 13 अगस्त 2005

सं. ओ.दो. 3571/2005-कार्मिक-1--श्री वी. पुरसोत्तम राव, पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (इरला-947) का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 20 जून 2005 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपना पदभार दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 3571/2005-कार्मिक-1--श्री रामबिलास कंडारा, सहायक निदेशक (लेखा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (इरला-3697) का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 25 अप्रैल 2005 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपना पदभार दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.-3666/05-सीआरसी (एमओ)--राष्ट्रपति जी, डाक्टर मनोज कुमार सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 25 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 11 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.-3918/2005-डी.सी. कार्मिक-1--श्री सुरेन्द्र सिंह, उप कमाण्डेंट (इरला-3918) 8 बटालियन केरिपुबल, का स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 06 अप्रैल 2005 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 17 अगस्त 2005

सं. ओ.दो.-1064/77-सीआरसी (एमओ)--राष्ट्रपति जी, डाक्टर कुलभूषण (इरला सं. 1599) को उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 08 अगस्त 2005 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निदेशक, (चिकित्सा) के पद पर स्थापनापन रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

वित्त मंत्रालय

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद म. प्र.-461005, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. 7 (153)/3850--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रतिभूति कागज कारखाना, में तकनीकी अधिकारी (उत्पादन) श्री मनोहरलाल पालीवाल को दिनांक 31 जुलाई 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है। इसी तारीख से उनका नाम प्रतिभूति कागज कारखाना, की पंजिका से हटा दिया जायेगा।

अश्विनी कुमार  
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 01 अगस्त 2005

सं. प्रशा. 1/1038-XXV/2005-2006/173--महालेखाकार (ले. एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने श्री बिमान कृष्ण पाल, सहायक लेखा अधिकारी

को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रु. 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति होने पर श्री पाल वेतन निर्धारण हेतु इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर एफ. आर. 22 1 (क) (i) के अधीन अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

एन. एन. हालदार  
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,

नई दिल्ली-66, दिनांक 22 अगस्त 2005

सं. प्रशा.-1/1171/1/XII (भाग-4)--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- रुपये) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री	
1. डी. लाहिडी	29.12.2003
2. (डॉ.) एस. के. शर्मा	30.12.2003
3. के. शंकर	30.12.2003
4. श्रीमती नीता कपूर	30.12.2003 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
5. नंद किशोर	30.12.2003
6. श्रीमती विजय लक्ष्मी के. गुप्ता	30.12.2003 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
7. जे. नटराजन	30.12.2003
8. आर. के. सिंगल	31.12.2003

कंवलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1171/1/XII--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (निरीक्षण) (वेतनमान रु. 24,050-650-26,000/-) के पद पर अधिकारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (निरीक्षण) के पद पर नियुक्ति की तारीख
1.	कु. अंजली अहलुवालिया	18.12.2003

कंवलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1172/1/XVI--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/-) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	आर. के. आनंद	21.10.2002 (सैद्धांतिक)
2.	श्रीमती वीना प्रसाद	08.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
3.	उमंग मोहन	16.02.2004
4.	श्रीमती मधूलिका पी. सुकुल	08.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
5.	टी. एस. कृपानिधि	09.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
6.	श्रीमती संहिता कर	08.01.2004
7.	डी. के. शर्मा	13.04.2004
8.	जी. एस. सूद	09.01.2004
9.	पी. एन. सुकुल	08.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
10.	सवितुर प्रसाद	09.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
11.	जे. एन. दास	08.01.2004
12.	श्रीमती मंजुला माथुर	09.01.2004
13.	उपेन्द्र साह	09.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
14.	श्रीमती शाश्वती बन्धोपाध्याय	09.01.2004
15.	आर. एस. राना	09.01.2004
16.	जयपाल सिंह	09.01.2004
17.	डी. बी. के. रेड्डी	12.01.2004
18.	आर. के. नायक	21.01.2004
19.	संजीव मिश्र	08.01.2004
20.	कु. अनुराधा मित्रा	12.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
21.	रजनीश कुमार	12.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)
22.	बी. वेनुगोपाल	12.01.2004
23.	जे. लुंगडिम	12.01.2004 (प्रोफार्मा पदोन्नति)

कंवलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1402/VIII--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ समयमान (वेतनमान

रु. 10,000-325-15,200/-) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ समयमान में नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	एस. टी. तायदे	15.07.2004
2.	एन. आर. प्रमाणिक	26.07.2004
3.	श्रीमती कविता गर्ग	16.07.2004
4.	आनंद अग्रवाल	15.07.2004
5.	राजेन्द्र प्रताप सिंह	16.07.2004
6.	श्रीमती मौलश्री पाण्डे	26.07.2004
7.	श्रीमती मोली सेन गुप्ता	17.09.2004
8.	श्रीमती निष्ठा उपाध्याय	15.07.2004
9.	निरंजन कुमार	15.07.2004
10.	विनोद कुमार	15.07.2004
11.	बसंत स्वरूप	19.07.2004

कंवलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1424/4/XXI--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के नियमित कैडर के कनिष्ठ समयमान (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	राम मूर्ति शुक्ला	27.05.2003 29.06.2002 (सैद्धांतिक)	30.06.2003 को सेवानिवृत्त
2.	एम. जे. एन्टोनी	26.05.2003	31.05.2003 को सेवानिवृत्त
3.	ज़मीर आलम	09.06.2003	31.08.2004 को सेवानिवृत्त
4.	ए. एन. गाड़े	16.06.2003	
5.	चन्द्र सेन	30.05.2003	30.09.2004 को सेवानिवृत्त
6.	के. वी. विश्वनाथन	30.06.2003	
7.	एम. पी. सुब्रामणियन	26.05.2003	

1	2	3	4	1	2	3	4
	सर्वश्री				सर्वश्री		
8.	आलोक कुमार दास	30.06.2003	01.10.2004 (पूर्वा.) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त	27.	एस. वी. घोने	17.06.2003	
				28.	के. के. वर्मा	29.05.2003	
				29.	एस. टिकी	27.05.2003	
9.	आई. पी. गोयल	26.05.2003	30.06.2003 को सेवानिवृत्त	30.	आर.एस.एल. भास्कर	28.05.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
10.	रवि दत्त शर्मा	26.05.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त	31.	जी. एस. आदिवासी	29.05.2003	
11.	एन. सारंगन	09.06.2003		32.	एस. बी. बुद्धातराव	09.06.2003	
12.	वी. ए. आर. गोखले	05.06.2003	02.05.2004 (पूर्वा.) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त	33.	टी. खाखा	09.06.2003	
13.	आर. एन. वर्मा	26.05.2003	31.08.2004 को सेवानिवृत्त	34.	आर. आर. चौहान	02.06.2003	
14.	आर. एस. एन. मूर्ति	27.05.2003	30.06.2003 को सेवानिवृत्त	35.	सुरेश कुमार शर्मा	27.05.2003	31.07.2003 को सेवानिवृत्त
15.	श्यामलेन्दु सेनगुप्ता	27.05.2003	31.05.2003 को सेवानिवृत्त	36.	डी. के. गुप्ता	02.06.2003	30.06.2003 को सेवानिवृत्त
16.	टी. एन. श्रीवास्तव	27.05.2003	31.03.2005 को सेवानिवृत्त	37.	बी. एस. मार्कण्डेय	26.05.2003	31.05.2004 को सेवानिवृत्त
17.	के. जे. काले	28.05.2003	31.08.2003 को सेवानिवृत्त	38.	एम. पोकर	26.05.2003	31.07.2003 को सेवानिवृत्त
18.	डी. एस. सेठी	26.05.2003	31.07.2005 को सेवानिवृत्त	39.	एम. के. धूपर	02.06.2003	31.05.2004 को सेवानिवृत्त
19.	कैलाश राम	27.05.2003	31.08.2003 को सेवानिवृत्त	40.	योगराज	07.07.2003	31.01.2005 को सेवानिवृत्त
20.	एस. एस. आर. अंजनयेलु	26.05.2003	31.12.2004 को सेवानिवृत्त	41.	के. के. दलेला	26.05.2003	31.03.2004 को सेवानिवृत्त
21.	वी. आर. सीतारमन	28.05.2003		42.	राजीव मिश्रा	28.05.2003	31.08.2004 को सेवानिवृत्त
22.	देवेन्द्र सिंह	26.05.2003	30.04.2005 को सेवानिवृत्त	43.	एस. डी. उपाध्याय	30.05.2003	31.07.2005 को सेवानिवृत्त
23.	बी. एस. बाजपेई	26.05.2003	31.08.2003 को सेवानिवृत्त	44.	टी. शंकर राव	27.05.2003	30.06.2005 को सेवानिवृत्त
24.	आर. एन. राय	27.05.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त	45.	जी. एस. असवाल	27.05.2003	31.05.2005 को सेवानिवृत्त
25.	एस. एस. भटनागर	26.05.2003	30.09.2004 को सेवानिवृत्त	46.	जे. एस. मौर्य	30.06.2003	
26.	पी.डी. गायकवाड़	13.06.2003		47.	एच. एन. कुलकर्णी	13.06.2003	
				48.	पी.एस. भाटिया	27.05.2003	30.06.2004 को सेवानिवृत्त
				49.	के. पी. नरेलिया	09.06.2003	

सं. प्रशा.-1/1424/4XX--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह ख) को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के नियमित कैंडर के कनिष्ठ समयमान (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	पदोन्नति की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3
सर्वश्री		
1. जे. पी. मांगलिक	28.06.2002	31.05.2003 को सेवानिवृत्त
2. फकीर चन्द	28.06.2002	31.03.2003 को सेवानिवृत्त
3. डी एस. धीर	28.06.2002	30.06.2002 को सेवानिवृत्त
4. एस. आर. वार्पे	12.07.2002	28.02.2005 को सेवानिवृत्त
5. गुरनाम सिंह जावंदा	17.07.2002	28.02.2003 को सेवानिवृत्त
6. जे. एन. चट्टोपाध्याय	28.06.2002	30.11.2002 को सेवानिवृत्त
7. एस. के. कनोजिया	28.06.2002	30.06.2005 को सेवानिवृत्त
8. एस. पी. गंभीर	28.06.2002	
9. के. सी. सूद	01.07.2002	31.07.2002 को सेवानिवृत्त
10. पी. आर. सागर	03.07.2002	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
11. राम बीर सिंह	28.06.2002	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
12. एस. यू. पुनेकर	28.06.2002	
13. टी. एम. जगताप	01.01.2003	
14. एस. पी. घोरपड़े	28.06.2002	
15. अमृत लाल सिंह	28.06.2002	31.03.2003 को सेवानिवृत्त

कमलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1424/4XXI--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह ख) को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के नियमित कैंडर

के कनिष्ठ समयमान (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	पदोन्नति की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3
सर्वश्री		
1. एस. ए. वेंकटरामन	01.12.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त
2. ए. रहमान	01.12.2003	31.01.2004 को सेवानिवृत्त
3. विश्वनाथ दास	01.12.2003	
4. टी. आर. खोसला	11.02.2004	
5. फखरे आलम	01.12.2003	31.01.2005 को सेवानिवृत्त
6. राम प्रसाद खंतवाल	08.12.2003	
7. पी. कृष्ण अयंगर	27.11.2003	31.01.2004 को सेवानिवृत्त
8. बी. सी. रामचन्द्रन	12.12.2003	
9. डी. एस. रंगनाथन	01.12.2003	
10. पी. जी. वेंकटरामन	03.12.2003	
11. बी. एन. चौबे	28.11.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
12. पी. एम. काले	17.12.2003	
13. जी. सी. खडसे	15.12.2003	
14. एच. के. गायकवाड़	15.12.2003	
15. गोवर्धन नाथ	09.12.2003	
16. बलदेव राज	02.12.2003	
17. देव राज	02.12.2003	
18. सुरेन्द्र पाल	16.12.2003	
19. अमरनाथ कुशवाह	28.11.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
20. जी. बी. रामन्नाराव	03.12.2003	
21. एस. एस. पाण्डे	28.11.2003	30.11.2003 को सेवानिवृत्त
22. सी. एल. खंतवाल	01.12.2003	30.06.2005 को सेवानिवृत्त
23. बी. एन. झा	08.12.2003	23.02.2005 को सेवानिवृत्त

1	2	3	4	1	2	3	4
	सर्वश्री				सर्वश्री		
24.	सत्यनारायण यादव	02.12.2003	31.12.2004 को सेवानिवृत्त	49.	झाई. के. वर्मा	01.12.2003	31.07.2004 को सेवानिवृत्त
25.	ब्रिज राज शर्मा	19.12.2003	31.03.2004 को सेवानिवृत्त	50.	पी. के. गोपालकृष्णन	01.12.2003	
26.	के. पी. बालाचन्द्रन	02.12.2003		51.	के. शशिकुमार	01.12.2003	
27.	एस. सोमसुन्दरम	01.12.2003	31.07.2004 को सेवानिवृत्त	52.	एस. सदाशिवन	04.12.2003	
28.	सिदेश्वर प्रसाद	01.12.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त	53.	बी. पी. बंसल	22.12.2003	
29.	बी. आर. सोम्यजुलु	19.01.2004	30.11.2004 को सेवानिवृत्त	54.	शिव कुमार शर्मा	15.12.2003	31.03.2005 को सेवानिवृत्त
30.	टी. जगन्नाथ राव	03.12.2003	30.06.2005 को सेवानिवृत्त	55.	जी. एन. मिश्रा	01.12.2003	30.04.2005 को सेवानिवृत्त
31.	एस. वेंटरमानी	02.12.2003	31.08.2004 को सेवानिवृत्त	56.	ए. वी. मास्कर	02.12.2003	
32.	यशपाल	03.12.2003	30.04.2005 को सेवानिवृत्त	57.	यू. के. अग्रवाल	01.12.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
33.	सोम प्रकाश	01.12.2003	30.06.2004 को सेवानिवृत्त	58.	वी. एस. पाण्डेय	28.11.2003	
34.	आर. सत्यमूर्ति	18.11.2004 (सैद्धांतिक)		59.	एस. बी. पाठक	01.12.2003	
35.	पी. एन. पाण्डेय	28.11.2003	31.01.2004 को सेवानिवृत्त	60.	जे. के. भट्टाचार्य	01.12.2003	
36.	रामचरण कुकरेती	03.12.2003	30.09.2004 को सेवानिवृत्त	61.	एम. टी. श्रीनिवासन	01.12.2003	
37.	आर. एल. खरबंदा	03.12.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त	62.	एन अमरसेन नायर	01.12.2003	31.03.2004 को सेवानिवृत्त
38.	आर. एस. चौहान	03.12.2003		63.	एम. एस. आर. मूर्ति	15.12.2003	
39.	धर्मपाल सिंह	02.12.2003	31.03.2004 को सेवानिवृत्त	64.	आर. विजयकृष्णन	22.12.2003	
40.	नरसिंह दास	17.12.2003		65.	सी. एम. वर्गीस	02.12.2003	
41.	रामपाल सिंह	29.12.2003		66.	टी. एन श्रीनिवासन	02.12.2003	
42.	आर. के. सरोज	28.11.2003		67.	के. ओ. ओसफ	01.12.2003	31.01.2005 को सेवानिवृत्त
43.	विशम्बर सिंह	22.12.2003		68.	आर. के. शर्मा	05.01.2004	
44.	वी. बी. वाकचौरे	03.12.2003		69.	के. चन्द्रशेखरन	02.12.2003	31.10.2004 को सेवानिवृत्त
45.	एस. आर. मोरे	31.12.2003		70.	सी. के. जॉन	01.12.2003	31.10.2004 को सेवानिवृत्त
46.	एम. पी. सिंह	22.12.2003		71.	ए. बी. दातार	05.12.2003	
47.	ए. के. सक्सैना	03.12.2003		72.	एस. प्रभाकरन	01.12.2003	31.05.2004 को सेवानिवृत्त
48.	देवेन्द्र कुमार गाबा	04.12.2003		73.	सुरेन्द्र मोहन सच्चर	01.03.2004	30.11.2004 को सेवानिवृत्त
				74.	संतोष कुमार	01.12.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त
				75.	आर. मुरलीधरन	29.12.2003	

1	2	3	4	1	2	3	4
	सर्वश्री				सर्वश्री		
76.	हरमेश चन्द्र सूरी	11.12.2003		102.	के. पॉल	08.12.2003	
77.	ए. एन. गोपालकृष्णन नायर	01.12.2003		103.	एस. मंडल	05.12.2003	
78.	एन. कानन	01.12.2003		104.	गिरधारी लाल	15.12.2003	
79.	के. नारायणन	01.12.2003		105.	पी. सी. सुब्रमणियन	01.12.2003	
80.	एस कानन	02.12.2003	31.07.2005 को सेवानिवृत्त	106.	ओ. पी. शेखर	02.12.2003	
81.	एम. तिरुमाला राव	14.01.2004	30.06.2005 को सेवानिवृत्त	107.	डी. जी. गायकवाड	16.12.2003	
82.	एस. के. शुक्ला	02.12.2003	31.05.2004 को सेवानिवृत्त	108.	सरदारी लाल	19.12.2003	
83.	एम. ए. शरीफ	01.12.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त	109.	हाकिम सिंह	05.12.2003	
84.	अनिल कुमार घोष	01.12.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त	110.	पी. विजय कुमार	29.12.2003	
85.	जी. एस. कोटल	01.12.2003	31.01.2005 को सेवानिवृत्त	111.	यमुना राम	28.11.2003	
86.	सी. गोपालन	27.11.2003	28.02.2005 को सेवानिवृत्त	112.	पी. विजयमोहन	18.12.2003	
87.	श्रीकृष्ण अग्रवाल	01.12.2003	31.12.2004 को सेवानिवृत्त	113.	बी. एन. राय	22.12.2003	
88.	आर. के. कपूर	28.11.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त	114.	एम. चैली	16.12.2003	
89.	एस. पी. गुप्ता	05.12.2003	31.07.2005 को सेवानिवृत्त	115.	विश्वास चन्द्र	03.12.2003	31.07.2004 को सेवानिवृत्त
90.	एस. नागराज	02.12.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त	116.	सी. टेप्पो	08.12.2003	
91.	पी. एन. श्रीवास्तव	28.11.2003	31.12.2003 को सेवानिवृत्त	117.	डी. सी. हसंदा	28.11.2003	
92.	सईद माजीदुल्लाह एहसान	02.12.2003	31.05.2005 को सेवानिवृत्त	118.	पी. बी. पथराबे	05.04.2004	
93.	दीन दयाल	01.12.2003	31.01.2004 को सेवानिवृत्त	119.	कल्याण सिंह	02.12.2003	
94.	बी. के. चंदाने	22.12.2003		120.	हरि सिंह	02.12.2003	
95.	आनंद कांता दास	03.12.2003		121.	बरकत राज	17.12.2003	
96.	एस. आर. दास	15.12.2003		122.	टी. नंदा कुमारन	15.12.2003	29.02.2004 को सेवानिवृत्त
97.	पी. आर. बिसवास	15.12.2003		123.	यू. सुदालयमुथु	04.12.2003	31.01.2004 को सेवानिवृत्त
98.	ए. डी. मेशराम	02.01.2004		124.	हरकेश चन्द शर्मा	09.12.2003	31.07.2005 को सेवानिवृत्त
99.	एस. के. रीठे	01.12.2003		125.	डी. डी. काहोल	28.11.2003	30.11.2003 को सेवानिवृत्त
100.	रोहताश कुमार	15.01.2004		126.	एस. सी. मेहन्दीरत्ता	12.03.2004	
101.	वी बी. कंजाले	28.11.2003		127.	पी. एम. पुरषोत्तमन	01.01.2004	31.05.2005 को सेवानिवृत्त
				128.	एच. मोहम्मद ज़मील	01.01.2004	31.08.2004 को सेवानिवृत्त
				129.	डी. एलबर्ट थेंकिया	02.01.2004	31.01.2004 को सेवानिवृत्त
				130.	के. वी. श्रीरंगन	07.01.2004	30.06.2005 को सेवानिवृत्त

1	2	3	4
सर्वश्री			
131. के. वैकटराव	01.01.2004	31.05.2004	को सेवानिवृत्त
132. आर. पी. भित्तल	12.01.2004	31.12.2004	को सेवानिवृत्त
133. आर. सी. टंगरी	01.01.2004	31.08.2004	को सेवानिवृत्त
134. एन. संधानम	01.01.2004	31.07.2004	को सेवानिवृत्त
135. एम. पी. शर्मा	01.04.2004	31.10.2004	को सेवानिवृत्त
136. दिलावर सिंह	19.01.2004	31.07.2004	को सेवानिवृत्त
137. जी. पी. खरबंदा	01.01.2004	31.01.2005	को सेवानिवृत्त
138. ललित प्रसाद नैथानी	12.01.2004		
139. टीकाराम पाल	12.01.2004		
140. बी. के. रामकृष्णन	22.01.2004		
141. एम. सी. रामकृष्णन	12.01.2004	31.12.2004	को सेवानिवृत्त
142. के. ए. मैथ्यु	01.01.2004		
143. इन्दरवीर शर्मा	23.02.2004		
144. के. हरिदासन	08.03.2004		
145. प्रीतम सिंह	12.02.2004	31.07.2005	को सेवानिवृत्त
146. एस. सी. बैनर्जी	31.03.2004		
147. आर. एस. मोने	27.02.2004	31.07.2005	को सेवानिवृत्त
148. ए. सत्यनारायण	10.02.2004	29.02.2004	को सेवानिवृत्त
149. के. रामचन्द्र मूर्ति	01.03.2004	30.06.2005	को सेवानिवृत्त
150. टी. एम. सेथुमाधवन	26.04.2004		
151. बी. नटराजन	23.02.2004		
152. नारायण सिंह	20.02.2004	31.10.2004	को सेवानिवृत्त
153. के. विश्वनाथन	19.04.2004		
154. पी. के. लांबा	29.03.2004		
155. सी. एस. हिंगे	25.03.2004	31.07.2005	को सेवानिवृत्त

1	2	3	4
सर्वश्री			
156. बाबू सिंह	11.03.2004	31.07.2005	को सेवानिवृत्त
157. वी. के. सूद	26.04.2004		
158. समय सिंह	30.04.2004		
कवलदीप सिंह रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)			

## लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. ए-19018/556/81-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एम. एस. मीणा, निदेशक (निर्यात संवर्द्धन) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31.07.2005 (अपराह) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

डी. के. गौतम  
उप निदेशक (प्रशा.)

-----

दिनांक 17 अगस्त 2005

सं. ए-19018/494/80-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. के. जौहरी, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर से दिनांक 31.07.2005 (अपराह) को सेवा निवृत्त हो गए।

डी. के. गौतम  
उप निदेशक (प्रशा.)

## खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 19 अगस्त 2005

सं. ए-19011/382/86-स्था. ए--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एम. एस. मानकर सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29 जुलाई 2005 (अपराह) से उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

बी. सूद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

दिनांक 22 अगस्त 2005

सं. ए-19011/344/97-स्था. ए--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री बि. पि. तालुकदार सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी

को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29 जुलाई 2005 (अपराह्न) से उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

बी. सुद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700 016, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. 2126/बी/ए-19011(1-आर.पी.आर.)/02-19ए--सक्षम पदाधिकारी द्वारा किए गए श्री आर. पेरुमल राजा की जाति-स्थिति के सत्यापन के फलस्वरूप श्री आर. पेरुमल राजा की सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1 (समूह-ख राजपत्रित) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 7,500-250-12,000/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अधिसूचना संख्या 3616/बी/ए-19012/(1-आर.पी.आर.)/02-19ए, दिनांक 13.12.2004 के अन्तर्गत अनन्तिम नियुक्ति 19.08.2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित नियमित समझी जाती है।

एस.के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 17 अगस्त 2005

सं. 4-332/2005/स्था.--भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के प्रभारी-निदेशक इस सर्वेक्षण के दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, मैसूर के डा. बी.आर. विजयेन्द्र, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को उसी केन्द्र पर सहायक मानव विज्ञानी (सांस्कृतिक), समूह-ख (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6500-200-10500/- के पद पर 1 अगस्त, 2005 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

लोकनाथ सोनी  
कार्यालय-प्रधान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-11, दिनांक 22 अगस्त 2005

सं. 10/2/2005-स्मा.--प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. गेहलोत, निदेशक (स्मारक) एतद्द्वारा यह निदेश देता हूँ

कि शाहजहाँ के वार्षिक उर्स के अवसर पर निम्नलिखित दिनों में ताजमहल, आगरा पर पर्यटकों से कोई प्रवेश-शुल्क नहीं लिया जाएगा।

1.	31.8.2005	अपराह्न 2 बजे से सांय 7 बजे तक
2.	1.9.2005	अपराह्न 2 बजे से सांय 7 बजे तक
3.	2.9.2005	प्रातः 6 बजे से सांय 7 बजे तक

डी.आर. गेहलोत  
निदेशक (स्मारक)  
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 11 अगस्त 2005

सं. 20/3(1)/2004-सीसीएस/वाल्फू. 11/31--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री बी. सीसीधरन, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7500-12000), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को दिनांक 01.08.2005 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी अनुसंधान केन्द्र में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-15200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 11 अगस्त 2005

सं. 6(2409)/2005-प्रशा./134--राष्ट्रपति, श्री पी. रामकृष्णन, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500-250-12,000), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉबे, मुंबई को दिनांक 28 जून 2005 (पूर्वाह्न) से (वेतनमान रु. 10,000-325-15200) परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय नई दिल्ली में प्रशासन अधिकारी-III के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवनकुट्टी  
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/5865--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.02.2005 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान रु.
01.	श्री जे. डी. येवले	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200
02.	श्री बी. कृष्णन	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200
03.	श्री एन. सी. पांडे	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200
04.	श्री आर. एस. कुंभारे	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200
05.	श्री एन. ए. सरक	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200

क्र. सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान
			रु.
06.	श्री पी. के. वर्मा	वैज्ञा. अधि./डी	10,000-325-15,200
07.	श्री ए. ए. महाडीक	वैज्ञा. अधि./ई	12,000-375-16,500
08.	श्री के. एस. पंडीयन	वैज्ञा. अधि./ई	12,000-375-16,500
09.	श्री पी. एस. सालुंके	वैज्ञा. अधि./सी	8,000-275-13,500

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/5865--राष्ट्रपति, श्री ए. के. रॉय को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में दिनांक 28.02.2005 (पूर्वाह) से प्रभावी रूप में, आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक अधिकारी/ई के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400094, दिनांक 16 अगस्त 2005

संदर्भ : क्रभनि/07011/भर्ती/4031--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक, क्रभनि, चेन्नै के क्रय सहायक श्री पी. कनीयप्पन को केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई में दि. 11.08.2005 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासनिक अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 19 अगस्त 2005

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2005/2373--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर: (रु. 18400-500-22400) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
			रु.
01.	श्री एन.सी. सामंत	वैज्ञा. अधि.(जी)	16,400-450-20,000
02.	डॉ. पी. बराट	वैज्ञा. अधि.(जी)	16,400-450-20,000
03.	श्री ए. राय	वैज्ञा. अधि.(जी)	16,400-450-20,000

एन. श्रीनिवास राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2005/2374--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर: (रु. 16000-450-20,000) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
			रु.
01.	श्री जी.एस. तकी	वैज्ञा. अधि.(एफ)	14,300-400-18,300
02.	श्री सुमीत सोम	वैज्ञा. अधि.(एफ)	14,300-400-18,300

एन. श्रीनिवास राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 12 अगस्त 2005

शुद्धि-पत्र

राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र, भाग-III खण्ड I पृष्ठ-164 में दिनांक 19 फरवरी, 2005 में प्रकाशित इस कार्यालय की दिनांक 03.02.2005 की अधिसूचना संख्या ए-32013/3/2001-स्था. II में इस अधिसूचना के पैरा 2 का पूरा उद्धरण रद्द करते हैं।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति, श्री सुभाष चन्द्र को 16400-450-20,000 रु. के वेतनमान में दिनांक 21.12.2004 से नियमित आधार पर और अगले आदेशों तक, उपमहानिदेशक, नागर विमानन के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

3. राष्ट्रपति, श्री आर.पी. साही, निदेशक, उड़नयोग्यता को, कॉसकैप-साउथ एशिया, काठमाण्डु, नेपाल से क्षेत्रीय उड़नयोग्यता निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति से वापिस आने पर, दिनांक 31.3.2005 पूर्वाह से 16400-450-20,000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर और अगले आदेशों तक, उपमहानिदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

4. उपमहानिदेशक के पद पर प्रोन्नत होने पर, सर्वश्री ए.के. रे, ए.के. चोपड़ा, एस.एस. नैट, सुभाष चन्द्र और आर.पी. साहू को महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय (मुख्यालय) नई दिल्ली में पद-स्थापित किया जाता है।

चानन राम  
उपनिदेशक प्रशासन

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद, दिनांक 17 अगस्त 2005

सं. 3-1537/2005-बै. स्थापना--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर (समूह ख) श्रीमति एम. बासुकी नक्शानवीज ग्रेड-I को वेतनमान रु. 6500-200-10500 में मुख्य नक्शानवीज (समूह-ख राजपत्रित) के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. अधिकारी का नाम सं.	तैनाती का वर्तमान स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01. श्रीमती एम. बासुकी	दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र, चेन्नई	06.07.2005 (पूर्वाह्न)

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वह दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर रहेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

एस. के. सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं चैम्पियन फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)एसईएस/2005/55/94251/9065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स चैम्पियन फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2005

सं. 560(5)एसईएस/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी क्र. एवं संयुक्त उद्यम, पहचान क्र. (सी.आई.एन.)
1.	2	3
1.	मैसर्स एसएनडी. फूड्स प्रा. लि.	55-88141
2.	मैसर्स रेनस इफेक्ट्स प्रा. लि.	55-98554
3.	मैसर्स दाव वाटर रिजार्ट्स लि.	05-33000
4.	मैसर्स सिल्वर आक इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	05-32314
5.	मैसर्स दुर्गा शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी लि.	05-31629
6.	मैसर्स सीएमबी पाइप्स लि.	05-32879
7.	मैसर्स आर के डी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलाप एण्ड लीजिंग लि.	55-51580
8.	मैसर्स ट्रांस इंडिया कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	55-105360
9.	मैसर्स इलाईमर फाइनैस प्रा. लि.	55-80273
10.	मैसर्स रियल टाइम होल्डिंग प्रा. लि.	55-101104
11.	मैसर्स माडस एण्ड माडस इम्पेक्स प्रा. लि.	55-105985
12.	मैसर्स एरो एनर्जी लि.	55-63907
13.	मैसर्स फर्स्ट क्वालिटी फाइनैस एण्ड पोर्टफोलियो लि.	55-53460
14.	मैसर्स प्रकाश वरस्टेट लि.	55-69342
15.	मैसर्स एम्पायर कलैक्शनस प्रा. लि.	55-94795
16.	मैसर्स जनसम्पर्क चिट्स प्रा. लि.	05-33098
17.	मैसर्स एसएसएस गोल्फ टेक प्रा. लि.	55-90529
18.	मैसर्स निलको इन्टर प्लास्ट लि.	55-39451
19.	मैसर्स एनडीजी चिट फण्ड प्रा. लि.	05-32930
20.	मैसर्स मोहन मीकिन इन्टरनेशनल लि.	55-10771
21.	मैसर्स इ ओ एन एक्वापुरा लि.	55-73353
22.	मैसर्स रोडो इम्पेक्स प्रा. लि.	55-98999
23.	मैसर्स फर्स्ट ऑन-लाईन टेक्नोलॉजिस लि.	55-81894
24.	मैसर्स डायनामिक लाइफ इंडिया प्रा. लि.	55-105570
25.	मैसर्स सान इस्पात उद्योग लि.	05-30391
26.	मैसर्स सत्यम केबल्स प्रा. लि.	55-75750
27.	मैसर्स प्रकाश कैपिटल स्टॉक ब्रोकिंग लि.	55-67790
28.	मैसर्स काल सेन्टर कॉलेज ऑफ यू.के. (इंडिया) लि.	55-111673
29.	मैसर्स सुपर कास्ट इस्पात (इंडिया) प्रा. लि.	55-82300

1	2	3
30.	मैसर्स मॉडर्न एज पावर लिमिटेड	55-67955
31.	मैसर्स मेधाशा ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	05-32652
32.	मैसर्स हरियाणा प्राक्साइड लि.	55-30634
33.	मैसर्स सन राईज ब्रेवरीज लि.	55-60932
34.	मैसर्स सिद्धार्थ विजन लि.	55-18614
35.	मैसर्स नोबल हाउस बिजनेस लि.	55-41892
36.	मैसर्स इण्डो गल्फ कंस्ट्रक्शन कं. लि.	55-44338
37.	मैसर्स इण्डाना इंडस्ट्रीज लि.	55-37757
38.	मैसर्स इंडियन ग्रेन्स एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लि.	55-41568
39.	मैसर्स दुर्गा फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	05-22129
40.	मैसर्स ब्लू स्काई फार्मा लि.	05-60933
41.	मैसर्स जी.एम. मोदी इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश प्रा. लि.	55-105341
42.	मैसर्स एक्ज्यूटेड कंसलटेंट्स प्रा. लि.	55-17121
43.	मैसर्स चाचन कास्टिंग्स प्रा. लि.	55-82281
44.	मैसर्स भरथरी चिदस प्रा. लि.	05-33572
45.	मैसर्स नार्थन हाइड्रो पावर जनरेशन कं. लि.	55-55520
46.	मैसर्स मेडस्टोन इन्टरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	55-95132
47.	मैसर्स ई-बजाज कम्पनी लि.	55-108735
48.	मैसर्स जे.एस.जी. कंसलटेंट्स प्रा. लि.	55-101917
49.	मैसर्स आर्ययन वूलन मिल्स लि.	05-32924
50.	मैसर्स चम्पा टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	05-9584
51.	मैसर्स हरनीत एस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	55-84545
52.	मैसर्स नेट्रोनिक् इंजीनियर्स प्रा. लि.	55-103205
53.	मैसर्स हार्डविक एसोसिएट्स प्रा. लि.	55-94096
54.	मैसर्स शर्मा एण्ड कपू एसोसिएट्स प्रा.लि.	55-94337
55.	मैसर्स पीपल मार्केटिंग प्रा. लि.	55-107155
56.	मैसर्स ए टू जेड वेब स्टोर्स कम्पनी प्रा. लि.	55-107394
57.	मैसर्स पीपल एजुकेशन प्रा. लि.	55-107154
58.	मैसर्स मनसा लीजिंग लि.	05-30727
59.	मैसर्स एक्सपो पॉलीमेट्स प्रा. लि.	55-91471
60.	मैसर्स स्टेनमेडिंग (इंडिया) प्रा. लि.	55-108614
61.	मैसर्स ला-मीरा फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रा. लि.	55-96776
62.	मैसर्स हरनीत फार्मास एण्ड रिजॉर्ट्स लि.	55-85705
63.	मैसर्स स्टार मीडिया (इंडिया) प्रा. लि.	--
64.	मैसर्स फास्ट बायर इंडिया प्रा. लि.	55-109104

1	2	3
65.	मैसर्स दीपक वाटर-ट्रीट केमिकल्स प्रा. लि.	55-99124
66.	मैसर्स वी.वी.के. कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	55-79179
67.	मैसर्स नोविक एसोसिएट्स प्रा. लि.	55-94098
68.	मैसर्स सरल ऊर्जा इंडिया प्रा. लि.	55-100760
69.	मैसर्स लिबरल ग्रीन फील्ड्स लि.	55-84375
70.	मैसर्स कोह-टेक इन्फो प्रा. लि.	55-99162
71.	मैसर्स मुंजाल डिटरजेन्ट्स लि.	55-40418
72.	मैसर्स वर्टीकल बिजनेस पार्कस ऑन लाइन प्रा. लि.	55-103451
73.	मैसर्स वेस्ट बाम्बे केबल्स नेटवर्क प्रा. लि.	55-102015
74.	मैसर्स भावनगर केबल्स प्रा. लि.	55-106817
75.	मैसर्स जामनगर केबल्स प्रा. लि.	55-106814
76.	मैसर्स साऊथ बाम्बे केबल नेटवर्क प्रा. लि.	55-102014
77.	मैसर्स जे.एम. हिल्स (इंडिया) प्रा. लि.	55-78526
78.	मैसर्स क्रेडिट रिसर्च इन्फॉर्मेशन एण्ड सिस्टम प्रा. लि.	55-110225
79.	मैसर्स वी वी के कंसलटेन्ट्स प्रा. लि.	55-79194
80.	मैसर्स कंसल कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	55-77126
81.	मैसर्स गायत्री एन्टरप्राइजेस प्रा. लि.	55-83041
82.	मैसर्स त्रिवेणी फिनइनवेस्ट एण्ड ट्रेडिंग लि.	55-63061
83.	मैसर्स कोमल लेमिनेट्स प्रा. लि.	55-88308
84.	मैसर्स क्वालिटी फास्टनेस प्रा. लि.	55-103656
85.	मैसर्स त्रिवेणी ऑयल फाइनैस एण्ड इनवेस्टमेंट लि.	55-63317
86.	मैसर्स बांस लि.	55-65885
87.	मैसर्स डेयरी केम इंडिया प्रा. लि.	55-81971
88.	मैसर्स अमृत इनफोटेक लि.	05-34688
89.	मैसर्स टेली एकसेस (इंडिया) प्रा. लि.	55-97549
90.	मैसर्स सेमको सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि.	55-10474
91.	मैसर्स अहदी फाइनैसियल सर्विसेज प्रा. लि.	55-69792
92.	मैसर्स फोर्स प्रिन्ट ग्राफिक प्रा. लि.	55-90708
93.	मैसर्स ई डी एण्ड एफ मेन इंडिया प्रा. लि.	55-88051
94.	मैसर्स चांदनी सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	55-77961
95.	मैसर्स अनलिमिटेड ड्रीमस नेटवर्कस मार्केटिंग प्रा. लि.	55-115432
96.	मैसर्स लिंक कम्प्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	55-102135
97.	मैसर्स बनारस इनफोटेक लि.	55-104860
98.	मैसर्स इंजीनियर्स ऑटोकेयर (इंडिया) प्रा.लि.	55-99165
99.	मैसर्स ऑयल टेक रासमॉस (इंडिया) प्रा. लि.	55-61074
100.	मैसर्स नीलकंठ फिक्स-कॉन इण्डस्ट्रीज लि.	55-88146
101.	मैसर्स श्योर ग्रोथ फाइनैसियल सर्विसेज लि.	55-50753
102.	मैसर्स टेक सॉफ्ट टेक्नोलोजीस लि.	55-104520
103.	मैसर्स इमरजेन्ट इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीस लि.	55-101315
104.	मैसर्स प्रियंका फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	05-19247

1	2	3
105.	मैसर्स जान-ए-आलम चिट्स प्रा. लि.	05-30476
106.	मैसर्स चांदना होस्पिटल प्रा. लि.	05-33745
107.	मैसर्स स्काई लाइन सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	55-96452
108.	मैसर्स मेगा मीडिया लि.	55-26227
109.	मैसर्स कॉन्फ्लुएन्स चिट्स प्रा. लि.	05-32214
110.	मैसर्स गिगयासा चिट्स प्रा. लि.	05-33388
111.	मैसर्स योगीराज फिनलीज प्रा. लि.	55-82158
112.	मैसर्स पिको कॉन्ट्रेक्ट्स इन्टरनेशनल प्रा. लि.	55-80158
113.	मैसर्स एल. आर. इम्पेक्स प्रा. लि.	55-83571
114.	मैसर्स नारोली फाइनैसियल सर्विसिज लि.	55-63839
115.	मैसर्स आई सी कैपिटल मार्किट्स लि.	55-41720
116.	मैसर्स तनाई इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	55-79593
117.	मैसर्स ए एस ए प्रोपर्टीज प्रा. लि.	55-108814
118.	मैसर्स इन्द्राक्षी एलॉयज प्रा. लि.	55-86448
119.	मैसर्स कटजेन प्रोजेक्स इंटरनेशनल लि.	55-73450
120.	मैसर्स गुलशन फिनकेप प्रा. लि.	55-83708
121.	मैसर्स एन एम एल फूड्स प्रा. लि.	55-92462
122.	मैसर्स रचना इन्टरप्राइजेज (इंडिया) प्रा. लि.	55-80746
123.	मैसर्स फेडमैनस रेस्टोरेन्ट्स प्रा. लि.	55-92439
124.	मैसर्स विगुल इनफिन लीज प्रा. लि.	55-88767
125.	मैसर्स अल-वूश इम्पेक्स प्रा. लि.	55-100843
126.	मैसर्स मासिन्टच कम्प्यूटिंग इंडिया प्रा. लि.	55-76322
127.	मैसर्स सत्यम सर्वेयर्स एण्ड लास एसेसोर्स प्रा. लि.	55-103851
128.	मैसर्स सगमो लेबोरेटरीज लि.	55-43399
129.	मैसर्स अग्रवाल डॉयगनोस्टिक्स प्रा. लि.	05-31855
130.	मैसर्स कृष्णा क्रीसेक प्रा. लि.	55-76487
131.	मैसर्स मेक्वेट प्रा. लि.	55-91203

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स कन्वन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/9024/2355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कन्वन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी.के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं

मैसर्स बी.एम. कारपोरेट कन्सलटेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/11749/2359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बी.एम. कारपोरेट कन्सलटेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी.के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं

मैसर्स आगरा आयल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/8899/2364--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आगरा आयल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी.के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं

मैसर्स अवतार म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/22346/2368--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अवतार म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी.के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं

मैसर्स प्राइड बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/11450/2408--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की

सं. एल.सी./560(3)/10157/2452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की

सं. एल.सी./560(3)/10980/2486--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कनोडिया टेललिकस

प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स कैजेन सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रा. लि. के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/24704/2490--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कैजेन सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स सक्कन एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लि. के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/25956/2494--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सक्कन एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स लनसेस कम्प्यूटर्स प्रा. लि. के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/15950/2498--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लनसेस कम्प्यूटर्स प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स स्तम्भ इंशोरेन्स सर्विसेज प्रा. लि. के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/22801/2502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स स्तम्भ इंशोरेन्स सर्विसेज प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स प्लेनट स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/26798/2506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स प्लेनट स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स बी. जी. मोहनोत एण्ड कम्पनी प्रा. लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/2810/1863--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बी. जी. मोहनोत एण्ड कम्पनी प्रा. लि. यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स दृष्टि ट्रेकिंग प्रा. लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/18475/1867--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स दृष्टि ट्रेकिंग प्रा. लि. यदि

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स जेनिक्स सेल्युशन्स प्रा. लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 17 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13536/1871--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स जेनिक्स सेल्युशन्स प्रा. लि. यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स संजय इन्टरप्राइजेज (फाईनेन्सर्स एण्ड ट्रेडर्स) प्रा. लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1669/1883--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स संजय इन्टरप्राइजेज (फाईनेन्सर्स एण्ड ट्रेडर्स) प्रा. लि. यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स सनसिटी सिस्टम्स इण्डिया लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/10087/1887--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स सनसिटी सिस्टम्स इण्डिया लि. यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स बालाजी म्यूजिक प्रा. लि. के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/11301/1891--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स बालाजी म्यूजिक प्रा. लि. यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार,  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स क्लास्टिक साल्यूशन प्रा. लि. के सम्बन्ध में

बेंगलूर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 24886/जेटीए/एमएम/560(3)/560(3)/एस.ई.एस.-2005/(51)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स क्लास्टिक साल्यूशन प्रा. लि. का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार,  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स प्रजा इन्फो सॉल्यूशन प्रा. लि. के सम्बन्ध में

बेंगलूर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 28305/जेटीए/एमएम/560(3)/एस.ई.एस.-2005/(52)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स प्रजा इन्फो सॉल्यूशन प्रा. लि. का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार,  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स सोहेम गार्मेन्ट्स प्रा. लि. के सम्बन्ध में  
बैंगलूर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 29254/जेटीए/एमएम/560(3)/एसईएस-2005/(54)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सोहेम गार्मेन्ट्स प्रा. लि. का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार,  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स इस्थमस एडिफाई प्रा. लि. के सम्बन्ध में  
बैंगलूर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 30327/जेटीए/एमएम/560(3)/एसईएस-2005/(48)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान

पर मैसर्स इस्थमस एडिफाई प्रा. लि. का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार,  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं  
मैसर्स ए आई सॉफ्ट कंसलटेन्सी प्रा. लि. के सम्बन्ध में  
बैंगलूर, दिनांक 16 अगस्त 2005

सं. 33001/जेटीए/एमएम/560(3)/एसईएस-2005/(50)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ए आई सॉफ्ट कंसलटेन्सी प्रा. लि. का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

संजय कुमार गुप्ता  
सहायक कम्पनी पंजीकार,  
कर्नाटक

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 13th August 2005

No. 22/Cal./2005/SCA/Genl.—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct under sub-rule (3) of Rule 4, Order I of Supreme Court Rules, 1966 (as amended) that the following days be observed as Court Holidays during the year 2006 :

## LIST OF SUPREME COURT HOLIDAYS 2006

Name of Holidays	Month & Date	Days of the week
Id-ul-Zuha (Bakrid)	January, 11	Wednesday
Republic Day	January, 26	Thursday
Muharram	February, 9	Thursday
Holi Holidays	March, 13 to March, 18	Monday to Saturday
Ram Navami	April, 6	Thursday
Mahavir Jayanti and Milad-Un-Nabi	April, 11	Tuesday
Good Friday	April, 14	Friday
Buddha Purnima	May, 13	Saturday
Raksha Bandhan	August, 9	Wednesday
Independence Day	August, 15	Tuesday
Janmashtami	August, 16	Wednesday
Mahatma Gandhi's Birthday and Dussehra Holidays	October, 2 to October, 7	Monday to Saturday
Diwali and Id-ul-Fitr Holidays	October, 20 to October, 28	Friday to 2nd Saturday
Christmas & New Year's Holidays	December, 18 to January 1, 2007	Monday to 2nd Monday

NOTE : The Summer Vacation of the Court will commence from Monday the 15th May, 2006 and the Court will resume its sitting after the vacation on Monday the 10th July, 2006.

By Order,

R. C. GANDHI  
Registrar (Admn. J)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 13th July 2005

No. A-32014/1/02-Admn. I.—Consequent upon his nomination to CSSS cadre of UPSC on promotion for inclusion in the Select List 2001 of Stenographers Grade 'A & B' (Merged) of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O. M. No. 5/11/2002-CS. II dated 30th May, 2005, the President is pleased to

appoint Shri Benjamin Kishku, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Steel as Private Secretary (Merged Grade 'A & B' of CSSS) on regular basis in the CSSS cadre of UPSC in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 01st July, 2005 (AN) until further orders.

2. The appointment of Shri Benjamin Kishku as Private Secretary will be on 'trial' basis for a period of two years w.e.f. 01st July 2005 (AN).

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 21st July 2005

No. A-12011/2/98-Admn. I.—In pursuance of DOP & Trg OM No. 5/16/2003-CS. II dated 28th June, 2005, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 1.7.2005 to 31.12.2005 or till Select List officers become available or until further orders, whichever is earlier.

(i) Ms. S. M. Oberoi

(ii) Shri H. C. Sehgal

2. The promotion of the above mentioned officers as PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification of even number dated 19.1.2005.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 28th July 2005

No. A-32013/2/2003-Admn. I.—In pursuance of DOP & Trg. O. M. No. 5/11/2003-CS. II dated 23.6.2005, the President is pleased to appoint Shri Prem Prakash, CSSS to the grade of Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- for the Select List Year 2003 in the cadre of UPSC on regular basis w.e.f. 23.6.2005 until further orders.

2. The order of seniority of Shri Prem Prakash in the grade of Senior PPS of Central Secretariat Stenographers' Service will follow the serial order given in the annexure to DOPT's O. M. referred to above.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 16th August 2005

No. DP/Pers. I/2003/110/3/33/2005/Pers. I.—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint

Shri H. C. Satyawali, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 15.07.2005.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

The 18th August 2005

No. DP/Pers. I/2005/0111/A-20023/2/82.—Shri Raj Pal Singh relinquished charge of the post of Additional Legal Adviser, CBI with effect from 31.07.2005 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 16th August 2005

No. 2/39/05-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Vineet Anand, Personal Assistant in the Commission, as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- on ad hoc basis, with effect from the forenoon of 01.08.2005 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri Vineet Anand to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 14th July 2005

No. O. II. 3697/05-PF-Pers.-I.—Vide Dte. Genl. CRPF, Order No. D. IX. 15/2001-CRC dated 22.06.2005 competent authority has imposed penalty of compulsory retirement on Shri S. Nelson, (IRLA No. 3697), Dy. Comdt of GC, CRPF, Pallipuram. Accordingly, above officer has relinquished the charge of his post on 05.07.2005 (AN). Hence the name of the officer stands deleted from the strength of the Force with effect from 05.07.2005 (AN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.-I)

The 13th August 2005

No. O. II. 976/72. Pers. I.—Consequent on acceptance of his notice dated 20.06.2005 for voluntary retirement from Government service, Shri V. Purushotham Rao, DIGP, CRPF, (IRLA No. 947) has been relieved from his post on

01.08.2005 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01.08.2005 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O. II. 3571/2005, Pers.-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 25.4.2005 for voluntary retirement from Government service, Shri Rambilas Kandara, Assistant Director (Accounts), CRPF, (IRLA No. 4176) has been relieved from his post on 01.08.2005 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01.08.2005 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O. II-3666/05-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Manoj Kumar Singh as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 25.07.2005 till further order. He is posted to 11 Bn CRPF.

J. N. SHARMA  
Addl. DIG (Pers.-I)

No. O. II-3918/05-PF-Pers.-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 06.04.2005 for voluntary retirement from Government service, Shri Surinder Singh Dy Comdt (IRLA No. 3918) of 8th Bn. CRPF, has been relieved from his post on 01.08.2005 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01.08.2005 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.-I)

The 17th August 2005

No. O. II-1064/77-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Kulbhushan, on promotion, as Director (Medical) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 08.08.2005 till further orders.

J. N. SHARMA  
Addl. DIG (Pers.-I)

### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461 005, the 20th July 2005

No. 7 (153)/3850.—On attaining the age of Superannuation Shri Manoharlal Paliwal, Technical Officer (Production), Security Paper Mill, Hoshangabad relinquished the charge of Office of Technical Officer (Production),

Security Paper Mill, Hoshangabad on 31.07.2005 (A. N.) and the name stands deleted from the roll of Security Paper Mill, Hoshangabad with effect from that date.

ASHWINI KUMAR  
General Manager

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT**  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),**  
**WEST BENGAL**

Kolkata-700 001, the 01st August 2005

No. Admn. I/1038-XXV/2005-2006/173.—The Accountant General (A & E), West Bengal is pleased to appoint Shri Biman Krishna Pal, Assistant Accounts Officer as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date of taking over his charge.

Shri Pal on his promotion as Accounts Officer may exercise his option under F. R. 22 I (a) (i) within one month from the date of issue of this order for fixation of pay.

His posting order will be issued separately.

N. N. HALDER  
Dy. Accountant General (Administration)

**DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT**  
**OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF**  
**DEFENCE ACCOUNTS**

New Delhi-66, the 22nd August 2005

No. AN-I/1171/I/XII (Pt. IV).—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers of the Indian Defence Accounts Service to the Higher Administrative Grade (Scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment to the Higher Administrative Grade
	S/Shri	
1.	D. Lahiri	29.12.2003
2.	(Dr.) S. K. Sharma	30.12.2003
3.	K. Shankar	30.12.2003
4.	(Smt.) Nita Kapoor	30.12.2003 (Proforma Promotion)
5.	Nand Kishre	30.12.2003
6.	(Smt.) Vijaya Lakshmy K. Gupta	30.12.2003 (Proforma Promotion)
7.	J. Natarajan	30.12.2003
8.	R. K. Singhal	31.12.2003

KANWALDEEP SINGH  
Assistant CGDA (Admn.)

No. AN-I/1171/I/XII.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officer of the Indian Defence Accounts Service to the post of Additional Controller General of Defence Accounts (Inspection) (Scale of pay of Rs. 24,050-650-26,000/-) with effect from the date shown against the officer and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment to the Additional Controller General of Defence Accounts (Inspection)
---------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Kum. Anjali Ahluwalia	18.12.2003
----	-----------------------	------------

KANWALDEEP SINGH  
Assisat CGDA (Admn.)

No. AN-I/1172/I/XVI.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers of the Indian Defence Accounts Service to the Senior Administrative Grade (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment to the Senior Administrative Grade
1	2	3
	S/Shri	
1.	R. K. Anand	21.10.2002 (Notional)
2.	(Smt.) Veena Prasad	08.01.2004 (Proforma Promotion)
3.	Umang Mohan	16.02.2004
4.	(Smt.) Madhulika P. Sukul	08.01.2004 (Proforma Promotion)
5.	T. S. Kripanidhi	09.01.2004 (Proforma Promotion)
6.	(Smt.) Sanhita Kar	08.01.2004
7.	D. K. Sharma	13.04.2004
8.	G. S. Sood	09.01.2004
9.	P. N. Sukul	08.01.2004 (Proforma Promotion)
10.	Savitur Prasad	09.01.2004 (Proforma Promotion)

1	2	3
	S/Shri/Smt./Kum.	
11.	J. N. Das	08.01.2004
12.	Manjula Mathur	09.01.2004
13.	Upendra Sah	09.01.2004 (Proforma Promotion)
14.	Saswati Bandyopadhyay	09.01.2004
15.	R. S. Rana	09.01.2004
16.	Jaipal Singh	09.01.2004
17.	D. B. K. Reddy	12.01.2004
18.	R. K. Nayak	21.01.2004
19.	Sanjiv Mittal	08.01.2004
20.	Anuradha Mitra	12.01.2004 (Proforma Promotion)
21.	Rajnish Kumar	12.01.2004 (Proforma Promotion)
22.	V. Venugopal	12.01.2004
23.	J. Lhungdim	12.01.2004 (Proforma Promotion)

KANWALDEEP SINGH  
Assistant CGDA (Admn.)

No. AN-I/1402/VIII.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers of the Indian Defence Accounts Service to the Senior Time Scale (Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment to the Senior Time Scale
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	S. T. Tayade	15.07.2004
2.	N. R. Pramanik	26.07.2004
3.	Kavita Garg	16.07.2004
4.	Anand Agrawal	15.07.2004
5.	Rajendra Pratap Singh	16.07.2004
6.	Maulishree Pande	26.07.2004
7.	Molly Sengupta	17.09.2004
8.	Nishtha Upadhyay	15.07.2004

1	2	3
	S/Shri	
9.	Niranjan Kumar	15.07.2004
10.	Vinod Kumar	15.07.2004
11.	Basant Swarup	19.07.2004

KANWALDEEP SINGH  
Assistant CGDA (Admn.)

No. AN-I/1424/4/XXI.—The President is pleased to appoint the under mentioned Senior Accounts Officers (Group B) to the regular cadre of the Indian Defence Accounts Service in the Junior Time Scale (Scale of pay of Rs. 8000-275-13500/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion	Remarks
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Ram Murthi Shukla	27.05.2003	Retired on 29.06.2002 (Notional)
2.	M. J. Antony	26.05.2003	Retired on 31.05.2003
3.	Zamir Alam	09.06.2003	Retired on 31.08.2004
4.	A. N. Gade	16.06.2003	
5.	Chandra Sen	30.05.2003	Retired on 30.09.2004
6.	K. V. Vishwanathan	30.06.2003	
7.	M. P. Subramanian	26.05.2003	
8.	Alok Kumar Das	30.06.2003	Voluntary retired on 1.10.2004 (FN)
9.	I. P. Goyal	26.05.2003	Retired on 30.06.2003
10.	Ravi Dutt Sharma	26.05.2003	Retired on 29.02.2004
11.	N. Sarangan	09.06.2003	
12.	VAR Gokhale	05.06.2003	Voluntary retired on 2.05.2004 (FN)
13.	R. N. Verma	26.05.2003	Retired on 31.08.2004
14.	R. S. N. Murthy	27.05.2003	Retired on 30.06.2003
15.	Shyamalendu Sengupta	27.05.2003	Retired on 31.05.2003

1	2	3	4
	S/Shri		
16.	T. N. Srivastava	27.05.2003	Retired on 31.03.2005
17.	K. J. Kale	28.05.2003	Retired on 31.08.2003
18.	D. S. Sethi	26.05.2003	Retired on 31.07.2005
19.	Kailash Ram	27.05.2003	Retired on 31.08.2003
20.	S. S. R. Anjaneyulu	26.05.2003	Retired on 31.12.2004
21.	V. R. Seetharaman	28.05.2003	
22.	Davinder Singh	26.05.2003	Retired on 30.04.2005
23.	B. S. Bajpai	26.05.2003	Retired on 31.08.2003
24.	R. N. Rai	27.05.2003	Retired on 31.12.2003
25.	S. S. Bhatnagar	26.05.2003	Retired on 30.09.2004
26.	P. D. Gaikwad	13.06.2003	
27.	S. V. Ghone	17.06.2003	
28.	K. K. Verma	29.05.2003	
29.	S. Tirkee	27.05.2003	
30.	R. S. L. Bhaskar	28.05.2003	Retired on 31.12.2003
31.	G. S. Adiwasi	29.05.2003	
32.	S. B. Budhatrao	09.06.2003	
33.	T. Khakha	09.06.2003	
34.	R. R. Chauhan	02.06.2003	
35.	Suresh Kumar Sharma	27.05.2003	Retired on 31.07.2003
36.	D. K. Gupta	02.06.2003	Retired on 30.06.2003
37.	V. S. Markendeya	26.05.2003	Retired on 31.05.2004
38.	M. Pocker	26.05.2003	Retired on 31.07.2003
39.	M. K. Dhupar	02.06.2003	Retired on 31.05.2004
40.	Yog Raj	07.07.2003	Retired on 31.01.2005
41.	K. K. Dalela	26.05.2003	Retired on 31.03.2004

1	2	3	4
	S/Shri		
42.	Rajiv Mishra	28.05.2003	Retired on 31.08.2004
43.	S. D. Upadhayay	30.05.2003	Retired on 31.07.2005
44.	T. Sankara Rao	27.05.2003	Retired on 30.06.2005
45.	G. S. Aswal	27.05.2003	Retired on 31.05.2005
46.	J. S. Maurya	30.06.2003	
47.	H. N. Kulkarni	13.06.2003	
48.	P. S. Bhatia	27.05.2003	Retired on 30.06.2004
49.	K. P. Neraliya	09.06.2003	

KANWALDEEP SINGH  
Asstt. CGDA (Admin.)

No. AN-I/1424/4/XX.—The President is pleased to appoint the under mentioned Senior Accounts Officers (Group B) to the regular cadre of the Indian Defence Accounts Service in the Junior Time Scale (Scale of pay of Rs. 8000-275-13500/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion	Remarks
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	J. P. Manglik	28.06.2002	Retired on 31.05.2003
2.	Faqir Chand	28.06.2002	Retired on 31.03.2003
3.	D. S. Dheer	28.06.2002	Retired on 30.6.2002
4.	S. R. Varpe	12.07.2002	Retired on 28.02.2005
5.	Gurnam Singh Jawanda	17.07.2002	Retired on 28.02.2003
6.	J. N. Chattopadhyay	28.06.2002	Retired on 30.11.2002
7.	S. K. Kanaujia	28.06.2002	Retired on 30.6.2005
8.	S. P. Gambhir	28.06.2002	
9.	K. C. Sood	01.07.2002	Retired on 31.07.2002
10.	P. R. Sagar	03.07.2002	Retired on 31.12.2003

1	2	3	4
	S/Shri		
11.	Ram Bir Singh	28.06.2002	Retired on 31.12.2003
12.	S. U. Puneekar	28.06.2002	
13.	T. M. Jagtap	01.01.2003	
14.	S. P. Ghorpade	28.06.2002	
15.	Amrit Lal Singh	28.06.2002	Retired on 31.03.2003

KANWALDEEP SINGH  
Assistant CGDA (Admn.)

No. AN-I/1424/4/XXI.—The President is pleased to appoint the under mentioned Senior Accounts Officers (Group B) to the regular cadre of the Indian Defence Accounts Service in the Junior Time Scale (Scale of pay of Rs. 8000-275-13500/-) of that Service, with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion	Remarks
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	S. A. Venkataraman	01.12.2003	Retired on 29.02.2004
2.	A. Rehman	01.12.2003	Retired on 31.01.2004
3.	Biswanath Das	01.12.2003	
4.	T. R. Khosla	11.02.2004	
5.	Fakhare Alam	01.12.2003	Retired on 31.01.2005
6.	Ram Prasad Khantwal	08.12.2003	
7.	P. Krishna Iyengar	27.11.2003	Retired on 31.01.2004
8.	V. C. Ramachandran	12.12.2003	
9.	D. S. Ranganathan	01.12.2003	
10.	P. G. Venkataraman	03.12.2003	
11.	V. N. Choubey	28.11.2003	Retired on 31.12.2003
12.	P. M. Kale	17.12.2003	
13.	G. C. Khadse	15.12.2003	
14.	H. K. Gaikwad	15.12.2003	
15.	Goverdhan Nath	09.12.2003	
16.	Baldev Raj	02.12.2003	

1	2	3	4
	S/Shri		
17.	Dev Raj	02.12.2003	
18.	Surender Pal	16.12.2003	
19.	Amarnath Kushwaha	28.11.2003	Retired on 31.12.2003
20.	G. V. Ramana Rao	03.12.2003	
21.	S. S. Pandey	28.11.2003	Retired on 30.11.2003
22.	C. L. Khantwal	01.12.2003	Retired on 30.06.2005
23.	B. N. Jha	08.12.2003	Retired on 28.02.2005
24.	Sathaya Narain Yadav	02.12.2003	Retired on 31.12.2004
25.	Brij Raj Sharma	19.12.2003	Retired on 31.03.2004
26.	K. P. Balachandran	02.12.2003	
27.	S. Somasundaram	01.12.2003	Retired on 31.07.2004
28.	Sideshwar Prasad	01.12.2003	Retired on 29.02.2004
29.	B. R. Somayajulu	19.01.2004	Retired on 30.11.2004
30.	T. Jagannadha Rao	03.12.2003	Retired on 30.06.2005
31.	S. Venkataramani	02.12.2003	Retired on 31.08.2004
32.	Yash Pal	03.12.2003	Retired on 30.04.2005
33.	Som Prakash	01.12.2003	Retired on 30.06.2004
34.	R. Sathiamurthy	18.11.2004 (Notional)	
35.	P. N. Pandey	28.11.2003	Retired on 31.01.2004
36.	Ram Charan Kukreti	03.12.2003	Retired on 30.09.2004
37.	R. L. Kharbanda	03.12.2003	Retired on 29.02.2004
38.	R. S. Chauhan	03.12.2003	
39.	Dharam Pal Singh	02.12.2003	Retired on 31.03.2004
40.	Narsingh Dass	17.12.2003	
41.	Rampal Singh	29.12.2003	
42.	R. K. Saroj	28.11.2003	

1	2	3	4
	S/Shri		
43.	Vishambar Singh	22.12.2003	
44.	V. B. Wakchaure	03.12.2003	
45.	S. R. More	31.12.2003	
46.	M. P. Singh	22.12.2003	
47.	A. K. Saxena	03.12.2003	
48.	Devendra Kumar Gauba	04.12.2003	
49.	Y. K. Verma	01.12.2003	Retired on 31.07.2004
50.	P. K. Gopalakrishnan	01.12.2003	
51.	K. Sasikumar	01.12.2003	
52.	S. Sadasivan	04.12.2003	
53.	V. P. Bansal	22.12.2003	
54.	Shiv Kumar Sharma	15.12.2003	Retired on 31.03.2005
55.	G. N. Mishra	01.12.2003	Retired on 30.04.2005
56.	A. V. Mhaskar	02.12.2003	
57.	U. K. Agarwal	01.12.2003	Retired on 31.12.2003
58.	V. S. Pandey	28.11.2003	
59.	S. B. Pathak	01.12.2003	
60.	J. K. Bhattacharjee	01.12.2003	
61.	M. T. Srinivasan	01.12.2003	
62.	N. Amersean Nair	01.12.2003	Retired on 31.03.2004
63.	M. S. R. Murthy	15.12.2003	
64.	R. Vijayakrishnan	22.12.2003	
65.	C. M. Varughese	02.12.2003	
66.	T. N. Srinivasan	02.12.2003	
67.	K. O. Ouseph	01.12.2003	Retired on 31.01.2005
68.	R. K. Sharma	05.01.2004	
69.	K. Chandrasekharan	02.12.2003	Retired on 31.10.2004
70.	C. K. John	01.12.2003	Retired on 31.10.2004
71.	A. B. Datar	05.12.2003	
72.	S. Prabhakaran	01.12.2003	Retired on 31.05.2004
73.	Surinder Mohan Sachar	01.03.2004	Retired on 30.11.2004
74.	Santosh Kumar	01.12.2003	Retired on 31.12.2003

1	2	3	4
	S/Shri		
75.	R. Muralidharan	29.12.2003	
76.	Harmesh Chander Suri	11.12.2003	
77.	A. N. Gopalakrishnan Nair	01.12.2003	
78.	N. Kannan	01.12.2003	
79.	K. Narayanan	01.12.2003	
80.	S. Kannan	02.12.2003	Retired on 31.07.2005
81.	M. Tirumala Rao	14.01.2004	Retired on 30.06.2005
82.	S. K. Shukla	02.12.2003	Retired on 31.05.2004
83.	M. A. Sharieff	01.12.2003	Retired on 31.12.2003
84.	Anil Kumar Ghosh	01.12.2003	Retired on 31.12.2003
85.	G. S. Kotal	01.12.2003	Retired on 31.01.2005
86.	C. Gopalan	27.11.2003	Retired on 28.02.2005
87.	Shrikrishna Agarwal	01.12.2003	Retired on 31.12.2004
88.	R. K. Kapoor	28.11.2003	Retired on 31.12.2003
89.	S. P. Gupta	05.12.2003	Retired on 31.07.2005
90.	S. Nagaraj	02.12.2003	Retired on 29.02.2004
91.	P. N. Srivastava	28.11.2003	Retired on 31.12.2003
92.	Syed Majeedullah Ahsan	02.12.2003	Retired on 31.05.2005
93.	Deen Dayal	01.12.2003	Retired on 31.01.2004
94.	B. K. Chandane	22.12.2003	
95.	Anand Kanta Das	03.12.2003	
96.	S. R. Das	15.12.2003	
97.	P. R. Biswas	15.12.2003	
98.	A. D. Meshram	02.01.2004	
99.	S. K. Rithe	01.12.2003	
100.	Rohtas Kumar	15.01.2004	

1	2	3	4
	S/Shri		
101.	V. B. Kenjale	28.11.2003	
102.	K. Paul	08.12.2003	
103.	S. Mondal	05.12.2003	
104.	Girdhari Lal	15.12.2003	
105.	P. C. Subramanian	01.12.2003	
106.	O. P. Shekhar	02.12.2003	
107.	D. G. Gaikwad	16.12.2003	
108.	Sardari Lal	19.12.2003	
109.	Hakim Singh	05.12.2003	
110.	P. Vijaya Kumar	29.12.2003	
111.	Yamuna Ram	28.11.2003	
112.	P. Vijayamohan	18.12.2003	
113.	B. N. Roy	22.12.2003	
114.	M. Chelly	16.12.2003	
115.	Viswas Chander	03.12.2003	Retired on 31.07.2004
116.	C. Toppo	08.12.2003	
117.	D. C. Hansda	28.11.2003	
118.	P. B. Pathrabe	05.04.2004	
119.	Kalyan Singh	02.12.2003	
120.	Hari Singh	02.12.2003	
121.	Barkat Raj	17.12.2003	
122.	T. Nanda Kumaran	15.12.2003	Retired on 29.02.2004
123.	U. Sudalaimuthu	04.12.2003	Retired on 31.01.2004
124.	Harkesh Chand Sharma	09.12.2003	Retired on 31.07.2005
125.	D. D. Kahol	28.11.2003	Retired on 30.11.2003
126.	S. C. Mendiratta	12.03.2004	
127.	P. M. Purushotaman	01.01.2004	Retired on 31.05.2005
128.	H. Mohd Jameel	01.01.2004	Retired on 31.08.2004
129.	D. Albert Thankiah	02.01.2004	Retired on 31.01.2004
130.	K. V. Srirangan	07.01.2004	Retired on 30.06.2005
131.	K. Venkata Rao	01.01.2004	Retired on 31.05.2004

1	2	3	4
	S/Shri		
132.	R. P. Mittal	12.01.2004	Retired on 31.12.2004
133.	R. C. Tangri	01.01.2004	Retired on 31.08.2004
134.	N. Santhanam	01.01.2004	Retired on 31.07.2004
135.	M. P. Sharma	01.04.2004	Retired on 31.10.2004
136.	Dilawar Singh	19.01.2004	Retired on 31.07.2004
137.	G. P. Kharbanda	01.01.2004	Retired on 31.01.2005
138.	Lalit Prasad Naithani	12.01.2004	
139.	Tikaram Pal	12.01.2004	
140.	V. K. Ramakrishnan	22.01.2004	
141.	M. C. Ramakrishnan	12.01.2004	Retired on 31.12.2004
142.	K. A. Mathew	01.01.2004	
143.	Indervir Sharma	23.02.2004	
144.	K. Haridasan	08.03.2004	
145.	Pritam Singh	12.02.2004	Retired on 31.07.2005
146.	S. C. Banerjee	31.03.2004	
147.	R. S. Mone	27.02.2004	Retired on 31.07.2005
148.	A. Satyanarayana	10.02.2004	Retired on 29.02.2004
149.	K. Ramachandra Moorthy	01.03.2004	Retired on 30.06.2005
150.	T. M. Sethumadhavan	26.04.2004	
151.	B. Natarajan	23.02.2004	
152.	Narayan Singh	20.02.2004	Retired on 31.10.2004
153.	K. Vishwanathan	19.04.2004	
154.	P. K. Lamba	29.03.2004	
155.	C. S. Hinge	25.03.2004	Retired on 31.07.2005
156.	Babu Singh	11.03.2004	Retired on 31.07.2005
157.	V. K. Vaid	26.04.2004	
158.	Samay Singh	30.04.2004	

KANWALDEEP SINGH  
Asst. CGDA (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 12th August 2005

No. A-19018/556/81-Admn (G).—On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Mina, Director (Export Promotion), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi, under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31.7.2005.

D. K. GAUTAM  
Dy. Director (Admn.)

The 17th August 2005

No. A-19018/494/80-Admn (G).—On attaining the age of superannuation, Shri R. K. Jhauhari, Deputy Director (Chemical), Small Industries Service Institute, Kanpur under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31st July, 2005.

D. K. GAUTAM  
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 19th August 2005

No. A-19011/382/86-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri M. S. Mankar, Asstt. Ore Dressing Officer has been promoted to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.7.2005 (A. N.)

P. SOOD  
Asstt. Admn. Officer  
for Controller General

The 22nd August 2005

No. A-19011/344/97-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri B. P. Talukdar, Asstt. Ore Dressing Officer has been promoted to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines Nagpur w.e.f. 29.7.2005 (A. N.)

B. SOOD  
Asstt. Admn. Officer  
for Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 12th August 2005

No. 2126/B/A-19011 (1-RPR)/02/19A.—Consequent upon verification of Caste Status of Shri R. Perumal Raja by the Competent Authority, the provisional appointment in respect of Shri R. Perumal Raja to the post of Assistant

Geologist Gr. I (Group-'B' Gazetted) in Geological Survey of India at the minimum of the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- vide Notification No. 3616/B/A-19012 (1-RPR)/02/19A dated 13.12.2004 stands regularized w.e.f. the forenoon of 19.08.2004 until further orders.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General

MINISTRY OF CULTURE  
(DEPARTMENT OF CULTURE)  
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 17th August 2005

No. 4-332/2005/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. B. R. Vijayendra, Research Associate (Cultural) attached to the Southern Regional Centre, Mysore of this Survey to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), group-B (Gazetted), in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- at the same station with effect from the forenoon of the 1st August, 2005, until further orders.

LOK NATH SONI  
Head of Office

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 22nd August 2005

No. 10/2/2005/M.—In exercise of the power conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, D. R. Gehlot, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at Taj Mahal, Agra from the visitors on the occasion of Annual "URS" of Shahjahan as per details given below :—

1. 31.08.05	2.00 P. M. to 7.00 P. M.
2. 01.09.05	2.00 P. M. to 7.00 P. M.
3. 02.09.05	6.00 A. M. to 7.00 P. M.

D. R. GEHLOT  
Director (Monuments)  
for Director General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 11th August 2005

No. 20/3(1)/2004-CCS/Vol. II/31.—The President is pleased to appoint Shri V. Sasidharan, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7500—12000/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000—15200) in the same Research Centre with effect from the forenoon of 01.08.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 11th August 2005

No. 6 (2409)/2005/Adm/134.—The President is pleased to appoint Shri P. Ramakrishnan, Administrative Officer-II (scale of pay of Rs. 7500-250-12,000/-), BARC, Mumbai as Administrative Officer-III in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Atomic Energy Branch Secretariat, New Delhi with effect from the forenoon of June 28, 2005.

P. P. MADHAVANKUTTY  
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 12th August 2005

No. 7/2(1)/2004-SUS/5865.—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of Construction, Services & Estate Management of this Department, on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 01.02.2005 (FN) until further orders :

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Scale of Pay
	S/Shri		
1.	J. D. Yevale	SO/D	10,000-325-15,200
2.	V. Krishnan	SO/D	10,000-325-15,200
3.	N. C. Pandey	SO/D	10,000-325-15,200
4.	R. S. Kumbhare	SO/D	10,000-325-15,200
5.	N. A. Sarak	SO/D	10,000-325-15,200
6.	P. K. Verma	SO/D	10,000-325-15,200
7.	A. A. Mahadik	SO/E	12,000-375-16,500
8.	K. S. Pandian	SO/E	12,000-375-16,500
9.	P. S. Salunke	SO/C	8,000-275-13,500

D. SURENDRAN  
Under Secy.

No. 7/2(1)/2004-SUS/5865.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Roy as Scientific Officer/E in the Directorate of Construction, Services & Estate Management of this Department in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 28.2.2005 (FN) until further orders.

D. SURENDRAN  
Under Secy.

#### (DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400 094, the 16th August 2005

No. DPS/07011/Rectt./4031.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri P. Kannappan, Purchase Assistant, Madras

Regional Purchase Unit, DPS, Chennai as Assistant Purchase Officer at Central Purchase Unit, DPS, Mumbai in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on regular basis in a temporary capacity w.e.f. 11.08.2005 (FN) until further orders.

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

#### (VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700 064, the 19th August 2005

No. VECC/Prom. (Aug.)/2005/2373.—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as "Scientific Officer-H" (Grade : Rs. 18400-500-22400/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2005 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
			Rs.
1.	Shri N. C. Samanta	SO/G	16400-450-20000
2.	Dr. P. Barat	SO/G	16400-450-20000
3.	Shri A. Roy	SO/G	16400-450-20000

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

No. VECC/Prom. (Aug.)/2005/2374.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as "Scientific Officer-G" (Grade : Rs. 16400-450-20000/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2005 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
			Rs.
1.	Shri G. S. Taki	SO/F	14300-400-18300
2.	Shri Sumit Som	SO/F	14300-400-18300

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

#### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 12th August 2005

#### CORRIGENDUM

In this office notification No. A-32013/3/2001-E. II dated 03.02.2005 published in the Gazette of India, Part-III, Section-1 dated the 19th February, 2005 at page-164, the President is pleased to cancel the whole text of para-2 of that notification.

2. In view of the above, the President is pleased to appoint Shri Subhash Chander to the post of Deputy Director General of Civil Aviation in the pay scale of Rs. 16400-450-20000 with effect from 21.12.2004 on regular basis and until further orders.

3. The President is also pleased to appoint Shri R. P. Sahi, Director of Airworthiness on his return from deputation as Regional Airworthiness Inspector, COSCAP-South Asia, Kathmandu, NEPAL, to the post of Deputy Director General in the pay scale of Rs. 16400-450-20000 on regular basis with effect from the forenoon of 31.03.2005 and until further orders.

4. On promotion to the post of Deputy Director General, S/Shri A. K. Ray, A. K. Chopra, S. S. Nat, Subhash Chander and R. P. Sahi are posted in the Office of the Director General of Civil Aviation (Headquarters), New Delhi.

CHANAN RAM  
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF WATER RESOURCES  
CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 17th August 2005

No. 3-1537/2005-Sci. Estt. 5601.—On the recommendations of the DPC (Group-B Gazetted), Smt. M. Vasuki, Draftsman Grade-I has been promoted to the post of Chief Draftsman (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :

Sl. No.	Name of Officer	Place of Posting	Date of Joining
1.	Smt. M. Vasuki	SECR, Chennai	6.7.2005 (FN)

She will be on probation for a period of two years from the date of her joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Champion Fertilizer & Chemicals Limited

New Delhi-110 019, the 30th June 2005

No. 560(3)/SES/2005/55/94251/9065.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Champion Fertilizer & Chemicals Limited unless cause is shown to

the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following companies

New Delhi, the 4th July 2005

No. 560(5)SES/2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Name of the company	Company No. and Corporate Identity Number (CIN)
1	2	3
1.	M/s. SND Food Private Limited	55-88141
2.	M/s. Rens Effect Private Limited	55-98554
3.	M/s. Dav Water Resorts Limited	05-33000
4.	M/s. Silver Oak Investment Private Limited	05-32314
5.	M/s. Durga Shakti Trading Co. Limited	05-31629
6.	M/s. CMB Pipes Limited	05-32879
7.	M/s. RKD Infrastructure Develop & Leaging Limited	55-51580
8.	M/s. Transindia Consultants Private Limited	55-105360
9.	M/s. Elymer Finance Private Limited	55-80273
10.	M/s. Real Time Holding Private Limited	55-101104
11.	M/s. Mads & Mads Impex Private Limited	55-105985
12.	M/s. Airo Energy Limited	55-63907
13.	M/s. First Quality Finance & Portfolio Limited	55-53460
14.	M/s. Prakash Worsted Limited	55-69342
15.	M/s. Empire Collections Private Limited	55-94795

1	2	3	1	2	3
16.	M/s. Jansampark Chits Private Limited	05-33098	44.	M/s. Bharthari Chits Private Limited	05-33572
17.	M/s. SSS Golf Tech Private Limited	55-90529	45.	M/s. Northern Hydro Power Generation Co. Limited	55-55520
18.	M/s. NILCO Interplast Limited	55-39451	46.	M/s. Medstone International India Private Limited	55-95132
19.	M/s. NDG Chit Fund Private Limited	05-32930	47.	M/s. E-Bajaj.Com Limited	55-108735
20.	M/s. Mohan Meakin International Limited	55-10771	48.	M/s. JSG Consultants Private Limited	55-101917
21.	M/s. EON Aquapura Limited	55-73353	49.	M/s. Aryan Woollen Mills Limited	05-32924
22.	M/s. Rordo Impex Private Limited	55-98999	50.	M/s. Champa Textile & Engg. Co. Private Limited	05-9584
23.	M/s. First On-line Technologies Limited	55-81894	51.	M/s. Harneet Estates & Developers Private Limited	55-84545
24.	M/s. Dynamic Life India Private Limited	55-105570	52.	M/s. Netronic Engineers Private Limited	55-103205
25.	M/s. San Ispat Udyog Limited	05-30391	53.	M/s. Hardwick Associates Private Limited	55-94096
26.	M/s. Satyam Cables Private Limited	55-75750	54.	M/s. Sharma and Kappu Associates Private Limited	55-94337
27.	M/s. Prakash Capital Stock Broking Limited	55-67790	55.	M/s. Pipal Marketing Private Limited	55-107155
28.	M/s. Call Centre College of UK (India) Limited	55-111673	56.	M/s. A2Z Webstores.Com Private Limited	55-107394
29.	M/s. Supercast Ispat (India) Private Limited	55-82300	57.	M/s. Pipal Education Private Limited	55-107154
30.	M/s. Modern Age Power Limited	55-67955	58.	M/s. Mansa Leasing Limited	05-30727
31.	M/s. Meghasha Trade & Investment Private Limited	05-32652	59.	M/s. Expo Polymats Private Limited	55-91471
32.	M/s. Haryana Peroxide Limited	55-30634	60.	M/s. Stanmeding (India) Private Limited	55-108614
33.	M/s. Sunrise Breweries Limited	55-60932	61.	M/s. La-Mira Freight Forwarding Private Limited	55-96776
34.	M/s. Siddarth Vision Limited	55-18614	62.	M/s. Harneet Farms & Resorts Limited	55-85705
35.	M/s. Noble House Business Limited	55-41892	63.	M/s. Star Media (India) Private Limited	55-108614
36.	M/s. Indo-Gulf Construction Co. Limited	55-44338	64.	M/s. Fast Buyer India Private Limited	55-109104
37.	M/s. Indana Industries Limited	55-37757	65.	M/s. Deepak Water-Treat Chemicals Private Limited	55-99124
38.	M/s. Indian Grains & Agro Products Limited	55-41568	66.	M/s. VVK Constructions Private Limited	55-79179
39.	M/s. Durga Pharmaceuticals Private Limited	05-22129	67.	M/s. Novick Associates Private Limited	55-94098
40.	M/s. Blue Sky Pharma Limited	05-60933	68.	M/s. Saral Urja India Private Limited	55-100760
41.	M/s. G. M. Modi Institute of English Private Limited	55-105341	69.	M/s. Liberal Green Fields Limited	55-84375
42.	M/s. Accurate Consultants Private Limited	55-17121	70.	M/s. Koh-Tech Info Private Limited	55-99162
43.	M/s. Chachan Castings Private Limited	55-82281			

1	2	3
71.	M/s. Munjal Detergents Limited	55-40418
72.	M/s. Vertical Business Parks Online Private Limited	55-103451
73.	M/s. West Bombay Cables Network Private Limited	55-102015
74.	M/s. Bhavnagar Cable Private Limited	55-106817
75.	M/s. Jamnagar Cables Private Limited	55-106814
76.	M/s. South Bombay Cable Network Private Limited	55-102014
77.	M/s. JM Hills (India) Private Limited	55-78526
78.	M/s. Credit Research Information & System Private Limited	55-110225
79.	M/s. VVK Consultants Private Limited	55-79194
80.	M/s. Kansal Computers Private Limited	55-77126
81.	M/s. Gayatri Enterprises Private Limited	55-83041
82.	M/s. Triveni Fininvest & Trading Limited	55-63061
83.	M/s. Komal Laminates Private Limited	55-88308
84.	M/s. Quality Fasteners Limited	55-103656
85.	M/s. Triveni Oil Finance & Investment Limited	55-63317
86.	M/s. Boss Limited	55-65885
87.	M/s. Dairy Chem India Private Limited	55-81971
88.	M/s. Amrit Infotech Limited	05-34688
89.	M/s. Tele Access (India) Private Limited	55-97549
90.	M/s. SEMCO Systems India Private Limited	55-10474
91.	M/s. Aahdee Financial Services Limited	55-69792
92.	M/s. Force Print Graphic Private Limited	55-90708
93.	M/s. ED & F Man India Private Limited	55-88051
94.	M/s. Chandni Securities Private Limited	55-77961
95.	M/s. Unlimited Dreams Networks Marketing Private Limited	55-115432

1	2	3
96.	M/s. Link Communications Private Limited	55-102135
97.	M/s. Banaras Infotech Limited	55-104860
98.	M/s. Engineers Autocare (India) Private Limited	55-99165
99.	M/s. Oiltek Rasmos (India) Limited	55-61074
100.	M/s. Neelkanth Fix-Con Industries Limited	55-88146
101.	M/s. Suregrowth Financial Services Limited	55-50753
102.	M/s. Taksoft Technologies Limited	55-104520
103.	M/s. Emergent Industries & Technologies Limited	55-101315
104.	M/s. Priyanka Pharmaceuticals Private Limited	05-19247
105.	M/s. Jaan-E-Alam Chits Private Limited	05-30476
106.	M/s. Chandna Hospital Private Limited	05-33745
107.	M/s. Sky Line Securities Private Limited	55-96452
108.	M/s. Megamedia Limited	55-26227
109.	M/s. Confluence Chits Private Limited	05-32214
110.	M/s. Gigyasa Chits Private Limited	05-33388
111.	M/s. Yogiraj Finlease Private Limited	55-82158
112.	M/s. Pico Contracts International Private Limited	55-80158
113.	M/s. L. R. Impex Private Limited	55-83571
114.	M/s. Naroli Financial Services Limited	55-63839
115.	M/s. I. C. Capital Markets Limited	55-41720
116.	M/s. Tanai Electronics Private Limited	55-79593
117.	M/s. ASA Properties Private Limited	55-108814
118.	M/s. Indrakshi Alloys Private Limited	55-86448
119.	M/s. Katzen Projects International Limited	55-73450
120.	M/s. Gulshan Fincap Private Limited	55-83708
121.	M/s. NML Foods Private Limited	55-92462
122.	M/s. Rachna Enterprises (India) Private Limited	55-80746
123.	M/s. Fatmans Restaurants Private Limited	55-92439

1	2	3
124.	M/s. Vigul Inflease Private Limited	55-88767
125.	M/s. Al-Brush Impex Private Limited	55-100843
126.	M/s. Macintouch Computing India Private Limited	55-76322
127.	M/s. Satyam Surveyors & Loss Assessors Private Limited	55-103851
128.	M/s. Sagmo Laboratories Limited	55-43399
129.	M/s. Aggarwal Diagnostic Private Limited	05-31855
130.	M/s. Krishna Cresec Private Limited	55-76487
131.	M/s. Maquette Private Limited	55-91203

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanchan Builders Private Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2005

No. 560(3)/SES-05/9024/2355.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanchan Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. M. Corporate Consultants Private Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2005

No. 560(3)/SES-05/11749/2359.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. M. Corporate Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Agra Oils Private Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2005

No. 560(3)/SES-05/8899/2364.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agra Oils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avtar Mutual Benefits Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2005

No. 560(3)/SES-05/22346/2368.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Avtar Mutual Benefits Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pride Biscuit Private Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/11450/2408.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pride Biscuit Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhavya Greentech Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/21113/2412.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhavya Greentech Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhavya Fincreds Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/21112/2416.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhavya Fincreds Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshita Credit Finance & Leasing Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/16041/2420.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akshita Credit Finance & Leasing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lions Credits Resources Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/21310/2424.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lions Credits Resources Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swarup Kumar Resort and Agro Private Limited

Kanpur-208001, the 16th August 2005

No. 560(3)/SES-05/22014/2428.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swarup Kumar Resort and Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhusons Construction & Investments  
Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/25632/2448.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhusons Construction & Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Point Organics Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/10157/2452.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Point Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shalabh Cements Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/13922/2456.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shalabh Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikram Vivek Flour Mills Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/13923/2460.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikram Vivek Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rameshwaram Builders Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/8786/2464.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rameshwaram Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parmar Hotels Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/10904/2468.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parmar Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balak Bakers Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/18429/2472.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Balak Bakers Private Limited

unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. Construction Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/16893/2476.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. M. Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanodia Telelinks Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/10980/2486.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanodia Telelinks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaizen Software System Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/24704/2490.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kaizen Software System Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skan Educational Services Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/25956/2494.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Skan Educational Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lansys Computers Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/15950/2498.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lansys Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stambh Insurance Services Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/22801/2502.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Stambh Insurance Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Planet Star Marketing Private Limited

Kanpur-208001, the 18th August 2005

No. 560(3)/SES-05/26798/2506.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Planet Star Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. G. Mohnot and Company Private Limited

Jaipur, the 16th August 2005

No. ROC/JPR/560/2810/1863.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. V. G. Mohnot and Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dristhi Tracking Private Limited

Jaipur, the 16th August 2005

No. ROC/JPR/560/18475/1867.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Dristhi Tracking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zanix Solutions Private Limited

Jaipur, the 17th August 2005

No. ROC/JPR/560/13536/1871.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Zanix Solution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjay Enterprises (Financiers and Traders)  
Private Limited

Jaipur, the 18th August 2005

No. ROC/JPR/560/1669/1883.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sanjay Enterprises (Financiers and Traders) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suncity Systems India Limited

Jaipur, the 18th August 2005

No. ROC/JPR/560/10087/1887.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Suncity Systems India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balaji Music Private Limited

Jaipur, the 18th August 2005

No. ROC/JPR/560/11301/1891.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Balaji Music Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Clasitek Solutions Private Limited

Bangalore-560 034, the 16th August 2005

No. 24886/JTA/MM/560(3)/SES-2005/(51).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months

from the date hereof the name of M/s. Clasitek Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Praja Info Solutions Private Limited

Bangalore-560 034, the 16th August 2005

No. 28305/JTA/MM/560(3)/SES-2005/(52).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Praja Info Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sohame Garments Private Limited

Bangalore-560 034, the 16th August 2005

No. 29254/JTA/MM/560(3)/SES-2005/(54).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sohame Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Isthmus Edify Private Limited

Bangalore-560 034, the 16th August 2005

No. 30327/JTA/MM/560(3)/SES-2005/(48).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Isthmus Edify Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. AI Soft Consultancy Private Limited

Bangalore-560 034, the 16th August 2005

No. 33001/JTA/MM/560(3)/SES-2005/(50).—Notice is  
hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of  
the Companies Act, 1956 that after expiry of three months

from the date hereof the name of M/s. AI Soft Consultancy  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and the said Company will  
be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka